

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-28122024-259672
SG-DL-E-28122024-259672असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 305
No. 335]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946	[N. C. T. D. No. 305

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

फा. सं. 11/24/2024/गृह पुलिस-11/4236-4244.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केंद्रीय अधिनियम 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल उपयुक्त सरकार होने के नाते, एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं :-

- दिल्ली पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नोडल एजेंसी होगी।
- संयुक्त आयुक्त पुलिस, आई एफ एस ओ, विशेष प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी के रूप में होंगे।(आई एफ एस ओ, इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस का संक्षिप्त नाम है।)
- पुलिस उपायुक्त, आई एफ एस ओ राज्य नोडल अधिकारी की सहायता के लिए सहायक राज्य नोडल अधिकारी के रूप में होंगे।

4. जिलों के पुलिस उपायुक्तों, आई एफ एस ओ, ई ओ डब्ल्यू अपराध, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष शाखा, आई जी आई ए, रेलवे और मेट्रो अपने-अपने क्षेत्राधिकार में दर्ज मामलों से संबंधित नोटिस जारी करने तथा विधि विरुद्ध कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जा रहे मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़े सूचना, डेटा या संचारलैक के मामलों को अधिसूचित करने के लिए नामित अधिकारी के रूप में होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलविंदर सिंह उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th December, 2024

F. No. 11/24/2024/HP-II/4236-4244.—In exercise of powers conferred by first proviso to clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 read with clause (b) of sub-section (3) of Section 79 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), the Lieutenant Governor being the appropriate Government, hereby, orders the following:-

1. Delhi Police to be the nodal agency of the National Capital Territory of Delhi, to perform the functions under Section 79(3) (b) of The Information Technology Act, 2000.
2. Joint Commissioner of Police, IFSO, Special Cell, as State Nodal Officer (IFSO being an acronym for Intelligence Fusion and Strategic Operations).
3. Deputy Commissioner of Police, IFSO as the Assistant State Nodal Officer to assist the State Nodal Officer.
4. Deputy Commissioners of Police of Districts, IFSO, EOW, Crime, Special Cell, Special Branch, IGIA, Railways and Metro as designated officers for issuing take down notice pertaining to cases reported in their respective jurisdiction and to notify the instances of information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act.

By the order and in the name of Lieutenant Governor of National Capital
Territory of Delhi

KULVINDER SINGH, Dy. Secy. (HOME)